



आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय,
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GOODS & SERVICE TAX & C. Ex.,
जी-105, न्यू इण्डस्ट्रीयल एरिया बासनी, डीजल शेड के पास, जोधपुर-342003
G-105, NEW INDUSTRIAL AREA BASNI, NEAR DIESEL SHED, JODHPUR-342003

फा.सं. 1-(22)08/प्रशा./जेडीआर/2021

दिनांक 29.10.2021

मल्टी टास्किंग स्टाफ हेतु ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से जी-105, न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर स्थित सी.जी.एस.टी. कार्यालय तथा इस कार्यालय के अधीन संभाग कार्यालयों में **मल्टी टास्किंग स्टाफ** हेतु अनुबंध के आधार पर पंजीकृत सेवाप्रदाताओं/ठेकेदारों से On-line E-procurement द्वारा निविदाये आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत जानकारी एवं निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का विवरण प्रशासनिक अधिकारी (मु.), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर से किसी भी कार्य दिवस को प्रातः 09.30 से सांय 18.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है अथवा विभागीय वेबसाईट [http://eprocure.gov.in\(CPPPportal\)/](http://eprocure.gov.in(CPPPportal)/) अथवा <http://centralexcisejaipur.nic.in> वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

इस कार्यालय को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को, बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। इस विज्ञापित में किसी भी संशोधन/बदलाव का प्रकाशन केवल उक्त वेबसाईट पर ही जारी किया जायेगा, न्यूज पेपर में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

प्रशासनिक अधिकारी(मु0)

(अ) कार्यालय का पूर्ण पता, क्षेत्रफल आदि का विवरण-

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से जी-105, न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर स्थित सी.जी.एस.टी. कार्यालय में मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) हेतु वार्षिक अनुबंध के आधार पर **MTS**(Multi Tasking Staff) उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकृत सेवाप्रदाताओं/ठेकेदारों से Online e-procurement द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है। कार्यालय का पूर्ण पता व कार्य का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम व पता	अधिकतम एम.टी.एस. की आवश्यकता	कार्य का विवरण
1	कार्यालय आयुक्त , केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जी-105, न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर	04	फाइल लाने एवं ले जाने, अति आवश्यक डाक सुपुर्द करवाने एवं डाक प्रेषण, रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट करवाने, महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे सेवापुस्तिका, फोटो कॉपी करवाने, कम्प्यूटर पर कार्य करना/कम्प्यूटर का ज्ञान, ऑफिस कार्यालय कार्य में मदद कराने इत्यादि कार्य एवं जो कार्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जायेगा।
2	कार्यालय सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-ए.बी.सी, वायुसेना केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 के सामने, अभयगढ़ स्कीम, जोधपुर	03	
3	कार्यालय सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-डी.ई, टी.डी.एम. बिल्डिंग, महावीर नगर, पाली	02	
4	कार्यालय सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-एफ, जी, चेतन महादेव मंदिर के सामने, जयपुर रोड़, बीकानेर	02	
5	कार्यालय सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-एच, आई, सी.आर. बिल्डिंग, सुखाड़ियानगर, सेक्टर-1, श्रीगंगानगर	02	

- नोट :-
1. सक्षम अधिकारी के द्वारा एम.टी.एस. लगाने की संख्या कम या ज्यादा की जा सकती है।
 2. सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये एम.टी.एस. का कार्य संतोषजनक नहीं होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें निविदा अवधि में कभी भी हटाया जा सकता है।
 3. वित्तीय निविदा में प्रस्तावित राशि अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखें। अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में प्रस्तुत दर को अंतिम माना जायेगा।

(ब) निविदा प्रक्रिया-

1. निविदा दो भागों में स्वीकार की जाएगी -(1) तकनीकी निविदा एवं (2) वित्तीय निविदा (BOQ)। तकनीकी निविदा के लिए अनुलग्नक 'क' में व वित्तीय निविदा के लिए अनुलग्नक 'ख' एवं निविदा स्वीकृति पत्र (अनुलग्नक 'ग') में निर्धारित प्रपत्र पूर्ण करके अलग-अलग अपलोड करना होगा।

निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) केवल सी.पी.पी. पोर्टल <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर ऑनलाइन जमा की जाएगी। निविदा अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं की जायेगी। ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने या सी.पी.पी. पोर्टल से संबंधित कोई भी प्रश्न के लिए सी.पी.पी. पोर्टल हैल्पडेस्क से सम्पर्क किया जा सकता है। इस सम्बंध में इस कार्यालय से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

निविदा से संबंधित समय सीमा का विवरण:-

Published Date	29 th Oct 2021 (04.00 P.M.)
Bid Document Download Start Date	29 th Oct 2021 (04.00 P.M.)
Bid Submission Start Date	29 th Oct 2021 (04.00 P.M.)
Bid Document Download End Date	19 th Nov 2021 (10.00 A.M.)
Bid Submission End Date	19 th Nov 2021 (11.00 A.M.)
Technical Bid Opening Date	22 th Nov 2021 (12.00 P.M.)
Financial Bid Opening Date	Will be intimated to Technically qualified firms

योग्य निविदा के लिए शर्तें-

2. निविदाकर्ता को श्रम विभाग, ई.एस.आई, भविष्य निधि व वस्तु एवं सेवाकर में पंजीकृत होना चाहिए।
3. फर्म का विगत तीन वर्षों में 20 लाख या अधिक का वार्षिक टर्न ओवर एवं तीन वर्ष का कार्य अनुभव तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. निविदाकर्ता के पास वैध Permanent Account Number (PAN) होना चाहिए।
5. निविदाकर्ता को पिछले एक वर्ष के कम से कम 10 टेकाधीन कर्मचारियों की पी.पी.एफ. कटौती व ई.एस.आई. कटौती की रसीद तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
6. निविदाकर्ता विगत तीन वर्षों की आयकर विवरणी व वस्तु एवं सेवाकर विवरणी निविदा के साथ संलग्न करें जो तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है।
7. यदि किसी फर्म को कार्यकाल के दौरान किसी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया हो तथा उसकी अमानत राशि जब्त कर ली गयी हो, तो वह फर्म निविदा भरने के योग्य नहीं है। इसके लिए निविदाकर्ता को undertaking देनी होगा।
8. निविदाकर्ता को निविदा के साथ राशि रु. 20,000/- अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय जोधपुर के नाम जो एस. बी. आई., जोधपुर में देय हो को निविदा जारी होने की तिथि से 15 दिन के अंदर अर्थात् 13.11.2021 तक अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। बिना अमानत राशि के निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान सफल निविदादाता की तकनीकी एवं वित्तीय निविदा में अपूर्ण/गलत सूचनाएँ पाई गईं या सफल निविदादाता द्वारा अपनी निविदा वापिस लेने का अनुरोध किया गया तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा करवाई गई अमानत राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी। असफल निविदादाता को चयन प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद बिना ब्याज के अमानत राशि लौटा दी जायेगी। सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध के सफल प्रदर्शन के उद्देश्य से (Performance Security-to ensure due performance of the contract, Performance Security is to be obtained from the successful bidder awarded the contract) ठेके के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. या बैंक गारंटी जो किसी राष्ट्रीयकृत/कॉमर्शियल बैंक का हो, Performance Security के तौर पर एक माह के भीतर-भीतर प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जोधपुर के नाम बनवाकर विभाग के पास जमा कराना होगा, जोकि सम्पूर्ण ठेका अवधि के समाप्ति (पूर्ण होने) के पश्चात भी अगले 60 दिनों के लिए वैध होना चाहिए तथा Performance Security के डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. या बैंक गारंटी की प्राप्ति के पश्चात ही बिना ब्याज के अमानत राशि (Bid Security) के लौटाया जायेगा।

9. यदि सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर-भीतर कार्य नहीं संभाला जाता है अथवा टेकाधीन कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवा पाता है अथवा Performance Security जमा नहीं करवाता है अथवा अन्य

10. निविदा के साथ लगाए गए सभी दस्तावेजों पर भी पृष्ठ नम्बर अंकित कर प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता के मय मोहर हस्ताक्षर होने चाहिए।
11. फर्म का ऑफिस/अधीनस्थ कार्यालय जोधपुर या उस स्थान (बीकानेर/श्रीगंगानगर/पाली) पर होना चाहिए, जिस स्थान के लिए फर्म निविदा भर रही है। इस आशय का प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किया जाये।
12. एक फर्म एक या अधिक स्थान के लिए निविदा भर सकती है। फर्म जिस स्थान के लिए निविदा भर रही है उसे उस स्थान के लिए (एक या अधिक) वित्तीय निविदा में अलग-अलग दरें दर्शानी होगी।
13. वित्तीय निविदा में दरें अंको व शब्दों दोनों रूपों में स्पष्टतः उल्लेखित होनी चाहिए। अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में प्रस्तुत दर को प्राथमिकता दी जाएगी।
14. अपूर्ण भरी हुई निविदाएं या गलत सूचनाएं पाई जाने पर निविदाएं निरस्त कर दी जाएंगी।
15. किसी भी निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश या उसके किसी भी सारवान भाग को किसी अन्य एजेंसी के लिये नहीं सौंपेगा या उपभाड़े (सबलैट) पर नहीं दिया जायेगा।
16. सभी योग्य निविदाओं का तुलनात्मक चार्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा तथा सक्षम आधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् सफल निविदादाता को यथानुसार सूचित कर दिया जाएगा।
17. सफल निविदादाता (फर्म) को आदेश प्राप्त होने के 10 दिवस की अवधि के भीतर-भीतर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।
18. निविदाकर्ता, निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व अपने व्यय पर किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में प्रशासनिक अधिकारी से सम्पर्क कर निविदा के बारे में जानकारी ले सकता है, इसके अलावा विभागीय वेबसाइट पर भी निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।

(स) कार्य की निबंधन एवं शर्तें-

1. सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाए गए ठेकाधीन कर्मचारी कार्य दिवस और जब भी बुलाया जाये कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।
2. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध करवाए गए मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) अनुभवी तथा प्रशिक्षित हों तथा स्वस्थ हों। ठेकाधीन कर्मचारी कार्यालय की मर्यादा, अनुशासन को कायम रखेंगे एवं कार्यालय के अधिकारियों के प्रति अनुशासनहीनता एवं अभद्रता प्रकट नहीं करेंगे और ना ही कार्यालय परिसर में धूम्रपान, मदिरा, मादक पदार्थ, पान-तम्बाकू आदि का प्रयोग करेंगे। सेवाप्रदाता अपने सभी कर्मचारियों को यूनिफार्म एवं फर्म का परिचय पत्र उपलब्ध करवाएगा। सेवाप्रदाता कार्यालय में मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के लिए उपलब्ध करवाए गए सभी कर्मचारियों का पूर्ण पता मय टेलीफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर कार्यालय रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध करवाएगा।
3. यदि कोई ठेकाधीन कर्मचारी किसी कार्यदिवस को अनुपस्थित होता है तो सेवाप्रदाता का दायित्व होगा कि वह अनुपस्थित कर्मचारी के स्थान पर उस दिन के लिए अन्य प्रतिस्थापन कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा।
4. सेवा प्रदाता द्वारा अधिकृत किये गये कर्मचारियों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। कार्यालय में उनकी निर्धारित सामान्य ड्यूटी के अतिरिक्त किसी तरह की अन्य प्राइवेट कार्य/गतिविधि करने की अनुमति नहीं होगी।
5. सेवा प्रदाता को भारत सरकार द्वारा लागू चिल्ड्रन एक्ट की पूर्ण रूप से पालना करनी होगी तथा कोई अवयस्क/नाबालिग कर्मचारी को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा।
6. सेवाप्रदाता/ठेकेदार अपने कर्मचारियों को मजदूरी/वेतन, भत्ते या अन्य लाभों के भुगतान आदि केन्द्र सरकार/श्रम विभाग अथवा अन्य जो भी एक्ट लागू हो, के सभी विधि, नियमों एवं नोटिफिकेशन एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अथवा जो भी अधिनियम लागू हो की पालना करने के लिये उत्तरदायी होगा। यह कार्यालय इस सम्बन्ध में समय-समय पर सरकार के विभिन्न विधि, नियमों, नोटिफिकेशन, आदेश एवं एक्ट के तहत आने वाले किसी भी तरह की जिम्मेदारियों अथवा किसी/सभी तरह के दावों के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
7. सेवाप्रदाता को केन्द्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी एक्ट, 1948 के तहत एवं भारत का राजपत्र, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 07.08.2008 को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम मजदूरी, का भुगतान करना होगा। यह सुनिश्चित कर ले कि उसके तथा सेवाप्रदाता के द्वारा निविदा में प्रस्तावित वित्तीय प्रस्ताव उपरोक्त के अनुसार ही हो। अनुबन्ध की तारीख से भविष्य में जो भी वैधानिक जिम्मेदारी होगी वह सेवाप्रदाता को वहन करनी होगी। इसके लिये यह कार्यालय/विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
8. सेवाप्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी कर्मचारी से मजदूरी के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हो। सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करवाए गए सभी कर्मचारी सेवाप्रदाता फर्म के कर्मचारी होंगे ना कि केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विभाग के। सेवाप्रदाता द्वारा मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के कार्यों को सम्पन्न करवाने हेतु लगाये जाने वाले कर्मचारी इस कार्यालय या अन्य सरकारी कार्यालयों में पार्ट/फुल टाईम के लिये नियमित/स्थायी होने का दावा नहीं कर सकते।
9. किसी भी ठेकाधीन कर्मचारी द्वारा किए गए दुर्व्यवहार, बेईमानी, चोरी, टूट-फूट, अवैधानिक कृत्य आदि के लिए सेवाप्रदाता उत्तरदायी होगा तथा ऐसे किसी भी नुकसान के लिए विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी। सेवाप्रदाता प्रत्यक्ष रूप सीधे ही अपने कर्मचारियों की किसी प्रकार की ड्यूटी, विवाद यथा दुर्घटना, बीमा क्लेम, लाभ, भत्ते आदि के लिए जिम्मेदार होगा एवं उनके द्वारा लगाये गये कर्मचारियों की असावधानी से कार्यालय के सामान की चोरी या टूट-फूट, किसी भी तरह के दावों की जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी। उक्त कृत्यों से होने वाले नुकसान की भरपाई सेवाप्रदाता को किए जाने वाले मासिक भुगतान में से की जाएगी।
10. सेवाप्रदाता राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा सभी विधिक नियमों, विनियमों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। सेवाप्रदाता को विभिन्न एक्ट/नियमों के तहत वांछित रजिस्टर्स, दस्तावेजों आदि का रखरखाव करना होगा तथा संबंधित विभागों द्वारा निरीक्षण किये जाने पर उन्हें जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा।
11. सेवाप्रदाता द्वारा इस कार्यालय द्वारा किये जाने वाले अनुबंध में उल्लेखित सभी नियमों एवं शर्तों की अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा। सेवाप्रदाता द्वारा किये जाने वाले अनुबंध एवं इस कार्यालय द्वारा स्वीकार की गई दरों में किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं होना चाहिये। यदि किसी तरह का विरोधाभास या सेवाओं में कमी पाई गई तो इस कार्यालय द्वारा 15 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा एवं अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी सेवाप्रदाता की होगी।
12. सेवाप्रदाता से मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) कार्यों के लिए निर्धारित अवधि के लिए अनुबंध किया जाएगा। इस विभाग को किसी भी समय न्यूनतम 15 दिनों का अग्रिम नोटिस देकर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा तथा मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के संबंध में यदि विभागीय नियमों में परिवर्तन आता है तो अनुबंध की शर्तों में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है एवं आवश्यकतानुसार सेवाप्रदाता द्वारा लगाये गये कर्मचारियों को हटाया जा सकता है अथवा तरन्त प्रभाव से अनुबंध निरस्त किया जा सकता

(द) भुगतान की शर्तें—

1. सेवाप्रदाता प्रतिमाह की एक तारीख को आवश्यक रूप से दो प्रतियों में कार्यालय में मासिक बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा। सेवाप्रदाता को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रचलित टीडीएस की कटौती कर भुगतान किया जाएगा। उक्त निविदा के सापेक्ष सभी प्रकार के कर देयताओं (जी.एस.टी. को छोड़कर) को सेवाप्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा इस संदर्भ में सेवाप्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह सेवा प्रदान करने के दौरान उत्पन्न हुये सभी प्रकार के कर (जी.एस.टी. को छोड़कर) व अन्य दायित्वों का भली भांति निर्वहन सुनिश्चित करेगा व तदनुसार दस्तावेजों/रिकॉर्ड्स का रखरखाव करेगा। सेवाप्रदाता को अधिकृत अधिकारी से संतोषजनक कार्य किए जाने संबंधित प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
2. सेवाप्रदाता को उपलब्ध कराये गये MTS द्वारा वास्तविक कार्यालय कार्यदिवस में किये गये कार्य का ही प्रतिदिन के अनुसार अनुपातिक रूप से गणना करके बिल का भुगतान किया जायेगा अर्थात् MTS द्वारा कार्यालय कार्यदिवस में किये गये वास्तविक दिनों के कार्य का ही भुगतान किया जायेगा। कार्यदिवस पर अनुपस्थित MTS का भुगतान अनुपातिक रूप से प्रस्तुत बिल से काट लिया जायेगा।
3. वित्तीय निविदा में राशि जी.एस.टी. को छोड़कर सभी टैक्स सहित दर्शायी जाये। जी.एस.टी. का भुगतान इस कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
4. सेवाप्रदाता को प्रतिमाह बिल के साथ साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा लगाये गये मल्टी टास्किंग स्टाफ(MTS) को केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी एक्ट के तहत तय की गई मजदूरी की दरों के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया कर दिया गया है तथा पीएफ/ईएसआई व सेवाकर के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। उसे समयानुसार पीएफ ईएसआई तथा जीएसटी से सम्बन्धित चालान आदि दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। सेवाप्रदाता द्वारा प्रतिमाह इस कार्यालय में कार्य पर लगाये गये प्रत्येक मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) का नाम, भुगतान की गई राशि, कटौती का विवरण, पी.एफ. खाते में जमा राशि एवं ई.एस.आई. की राशि का स्टेटमेन्ट प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
5. सेवाप्रदाता द्वारा हर माह पिछले माह की मजदूरी का भुगतान करने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
6. यदि किसी अपरिहार्य कारणवश इस कार्यालय द्वारा मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में सेवाप्रदाता फर्म को अपने कर्मचारियों को समय पर पूर्ण भुगतान करना होगा।
7. यदि इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त हुई कि सेवाप्रदाता अपने कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहा है तो उसके बिल/जमा करवाई गई performance security में से उनके मजदूरों को देय भुगतान की राशि काट कर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
8. सेवाप्रदाता को, वसूली की जाने वाली राशि की कटौती करके, यदि कोई हो तो, प्रतिमाह फर्म के बैंक खाते में बिल का भुगतान वेतन एवं लेखा कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर द्वारा ई-पेमेन्ट से किया जायेगा।
9. अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं करने पर या मल्टी टास्किंग स्टाफ कार्यों में शिकायत प्राप्त होने या कार्य पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं होने पर इस कार्यालय द्वारा सेवाप्रदाता के बिल में से उचित राशि की कटौती की जाएगी। सेवाप्रदाता के किसी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने पर या संतोषजनक कार्य नहीं करने पर न्यूनतम 5 प्रतिशत से अधिकतम 30 प्रतिशत प्रतिमाह की शास्ति आरोपित की जाएगी तथा उक्त राशि की वसूली सेवाप्रदाता द्वारा प्रस्तुत बिल में से की जाएगी। शास्ति आरोपण के सम्बन्ध में कार्यालय का निर्णय अन्तिम होगा तथा सेवाप्रदाता के लिए बाध्यकारी होगा तथा यह किसी प्रकार के विवाद का विषय नहीं होगा।

मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) का मुख्य कार्य है कि फाइल लाने एवं ले जाने, अति आवश्यक डाक सुपुर्द करवाने एवं डाक प्रेषण, रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट करवाने, महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे सेवापुस्तिका, फोटो कॉपी करवाने, कम्प्यूटर पर कार्य करना/कम्प्यूटर का ज्ञान, ऑफिस कार्यालय कार्य में मदद कराने इत्यादि कार्य जो कार्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बताया जायेगा, इस हेतु सेवाप्रदाता को निम्न कार्य करवाने होंगे—

मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तों से सहमत हैं।

हस्ताक्षर मय तिथि
हस्ताक्षरकर्ता का नाम
फर्म का नाम
मोहर

तकनीकी निविदा

मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) कार्यो की निविदा के लिए आवश्यक पूर्व-योग्यता निर्धारण हेतु प्रोफार्मा

01.	फर्म/संस्था का नाम	
02.	डायरेक्टर/पार्टनर/प्रोपराईटर का नाम	
03.	पूर्ण पता एवं दूरभाष/मोबाईल/फैक्स नम्बर	
04.	सम्पर्क व्यक्ति का विवरण (नाम/पता/टेलीफोन नम्बर)	
05.	संस्था का विवरण (क्या फर्म प्रोपराईटरशिप/पार्टनरशिप/कम्पनी है)	
06.	आयकर पैन नम्बर (फोटोप्रति अपलोड करें)	
07.	विगत 3 वर्ष की आयकर विवरणिका संलग्न करें।	
08.	विगत 3 वर्ष की GST विवरणिका संलग्न करें।	
09.	GST पंजीकरण संख्या (फोटो प्रति अपलोड करें)	
10.	रीजनल प्रोविडेंट फंड कार्यालय द्वारा आवंटित प्रोविडेंट फंड संख्या (प्रति अपलोड करें)	
11.	ईएसआई पंजीकरण संख्या (प्रति अपलोड करें)	
12.	गत तीन वर्षों का अनुभव का विवरण (कृपया सरकारी/पब्लिक अण्डरटेकिंग का कार्य आदेश/सेवा प्रमाण पत्र अपलोड करें)	
13.	अन्य सरकारी/पब्लिक अण्डरटेकिंग जहां वर्तमान में कार्य लिया हो की सूची	
14.	फर्म के कुल स्टाफ/कर्मचारियों की संख्या	
15.	धरोहर राशि का विवरण	
16.	फर्म का ऑफिस/अधिनस्थ ऑफिस राजस्थान में होना का प्रमाण पत्र	

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार उक्त दी गई सूचनाएं पूर्ण एवं सही हैं। मैं/हम जानते हैं कि उक्त दिए गए विवरण में कोई भी सूचना या विवरण गलत पाया जाता है तो मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) के अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है, अमानत राशि जब्त की जा सकती है एवं भविष्य में हमें ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है।

हस्ताक्षर मय तिथि

हस्ताक्षरकर्ता का नाम

फर्म का नाम

मोहर

वित्तीय निविदा

Price bid in the form of BOQ

मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) कार्यों की निविदा के लिए दरें प्रस्तावित करने हेतु प्रोफार्मा

1. फर्म/पार्टी का नाम व पता :
2. टेलीफोन/फैक्स/मोबाईल नम्बर :
3. प्रोपराईटर/पार्टनर्स/निदेशकों के नाम :
व पते मोबाईल नम्बर सहित
4. कार्य का विवरण : फाइल लाने एवं ले जाने, अति आवश्यक डाक सुपुर्द करवाने एवं डाक प्रेषण, रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट करवाने, महत्वपूर्ण दस्तावेजों जैसे सेवापुस्तिका, फोटो कॉपी करवाने, कम्प्युटर पर कार्य करना/कम्प्युटर का ज्ञान, ऑफिस कार्यालय कार्य में मदद कराने इत्यादि कार्य एवं जो कार्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर बताया जायेगा।
5. दरों का विवरण :

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	कुल राशि (प्रतिमाह)	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जी-105, न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर		दरें ईएसआई, पीएफ व सेवा चार्ज व समस्त अन्य कर सहित(जी.एस. टी. को छोड़कर) हैं।
2	कार्यालय सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-ए.बी.सी, वायुसेना केन्द्रीय विद्यालय नं. 1 के सामने, अभयगढ़ स्कीम, जोधपुर		
3	कार्यालय सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-डी.ई, टी.डी.एम. बिल्डिंग, महावीर नगर, पाली		
4	कार्यालय सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-एफ, जी, चेतन महादेव मंदिर के सामने, जयपुर रोड़, बीकानेर		
5	कार्यालय सहायक आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-एच, आई, सी.आर. बिल्डिंग, सुखाड़ियानगर, सेक्टर-1, श्रीगंगानगर		

GST व अन्य कर यदि लागू हों :
(विवरण सहित) (विभाग द्वारा वहन किया जाएगा)

6. मल्टी टास्किंग स्टाफ (MTS) सेवा के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक दर :

(कम संख्या 5, 6 व का कुल योग) अंकों में

शब्दों में

- नोट: 1. उक्त वर्णित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह के टैक्स या अन्य अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा नहीं किया जाएगा।
2. फर्म का ऑफिस/अधीनस्थ कार्यालय जोधपुर या उस स्थान (बीकानेर/श्रीगंगानगर/पाली) पर होना चाहिए, जिस स्थान के लिए फर्म निविदा भर रही है। फर्म द्वारा जिस अधीनस्थ/ऑफिस कार्यालय में एम. टी.एस. की सेवाएं प्रदान की जायेगी वहाँ फर्म का ऑफिस/कार्यालय अनिवार्यतः(अवश्य) होना चाहिए अन्यथा उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ अपलोड किया जाये।
3. एक फर्म एक या अधिक स्थान के लिए निविदा भर सकती है। फर्म जिस स्थान के लिए निविदा भर रही है उसे उस स्थान के लिए (एक या अधिक) वित्तीय निविदा में अलग-अलग दरें दर्शानी होगी।
4. वित्तीय निविदा में दरें अंको व शब्दों दोनों रूपों में स्पष्टतः उल्लेखित होनी चाहिए। अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में प्रस्तुत दर को अंतिम माना जायेगा।

TENDER ACCEPTANCE LETTER
(To be given on Company Letter Head)

To,

Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender.

Tender Reference No: _____

Name of Tender / Work: -

Dear Sir,

1 . I/ We have downloaded / obtained the tender document(s) for the above mentioned 'Tender/Work' from the web site(s) namely:

as per your advertisement, given in the above-mentioned website(s).

2. I / We hereby certify that I / we have read the entire terms and conditions of the tender documents from Page No. _____ to _____ (including all documents like annexure(s), schedule(s), etc.), which form part of the contract agreement and I / we shall abide hereby by the terms / conditions / clauses contained therein.

3. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/ organisation too has also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.

4. I / We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) / corrigendum(s) in its totality / entirety.

5. In case any provisions of this tender are found violated, then your department/ organization shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty to reject this tender/bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours Faithfully,

(Signature of the Bidder, with Official Seal)



आयुक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय,
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GOODS & SERVICE TAX & C. Ex.,
जी-105, न्यू इण्डस्ट्रीयल एरिया बासनी, डीजल शेड के पास, जोधपुर-342003
G-105, NEW INDUSTRIAL AREA BASNI, NEAR DIESEL SHED, JODHPUR-342003


फा.सं. 1-(22)08/प्रशा./जेडीआर/2021

दिनांक 29.10.2021

मल्टी टास्किंग स्टाफ हेतु ई-निविदा आमंत्रित करने का नोटिस

भारत के राष्ट्रपति महोदय की ओर से जी-105, न्यू जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर स्थित सी.जी.एस.टी. कार्यालय तथा इस कार्यालय के अधीन संभाग कार्यालयों में मल्टी टास्किंग स्टाफ हेतु अनुबंध के आधार पर पंजीकृत सेवाप्रादाताओं/ठेकेदारों से से <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर द्विबोली प्रणाली के अन्तर्गत ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

1. निविदाओं के प्रपत्र एवं अन्य विवरण [http://eprocure.gov.in\(CPPPortal\)/](http://eprocure.gov.in(CPPPortal)/) <http://centralexcisejaipur.nic.in> वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. ऑनलाईन निविदा के आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि 19.11.2021 को अपरान्ह 11.00 बजे तक है।


प्रशासनिक अधिकारी(मु0)

प्रतिलिपि -

1. अधीक्षक (कम्प्यूटर), केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशन हेतु।
2. नोटिस बोर्ड
3. संपादक, दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका, को उक्त निविदा सूचना, जोधपुर संस्करण में 64 स्क्वायर से. मी. तक के कॉलम में डी.ए.वी.पी. दर पर प्रकाशन हेतु।